



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 6, 2003/पौष 16, 1924

No. 9]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 6, 2003/PAUSA 16, 1924

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2003

सं 2/2003-सीमाशुल्क (एन.टी.)

सा.का.वि. 11(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 29/98-सीमाशुल्क, तारीख 2 जून, 1998 के द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3क के अधीन, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित माल को विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट प्रदान की थी :—

उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अन्तर्गत आने वाला सभी माल, जो :—

(क) उक्त अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क, और

(ख) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा (3) की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमाशुल्क, से छूट प्राप्त है।

और केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 34/98-सीमाशुल्क, तारीख 13 जून, 1998 की अधिसूचना द्वारा, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित माल को विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट प्रदान की थी :—

(i) उक्त पहली अनुसूची के अन्तर्गत आने वाला सभी माल, जो :—

(क) उक्त अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क, और

(ख) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा (3) की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमाशुल्क, से छूट प्राप्त है।

(ii) उक्त पहली अनुसूची के अन्तर्गत आने वाला सभी माल :—

(क) जिसकी दशा में सीमाशुल्क की निःशुल्क दरें उक्त पहली अनुसूची के, यथास्थित, स्तम्भ (4) या स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट हैं, और

(ख) जो उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा (3) की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमाशुल्क, से छूट प्राप्त है,

और केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 56/98-सीमाशुल्क, तारीख 1 अगस्त, 1998 की अधिसूचना द्वारा, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित माल को विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट प्रदान की थी :—

(i) उक्त पहली अनुसूची के अन्तर्गत आने वाला सभी माल, जो :—

(क) उक्त अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क, और

(ख) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा (3) की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमाशुल्क, से छूट प्राप्त है।

(ii) उक्त पहली अनुसूची के अन्तर्गत आने वाला सभी माल :—

(क) जिसकी दशा में सीमाशुल्क की निःशुल्क दरें उक्त पहली अनुसूची के, यथास्थित, स्तम्भ (4) या स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट हैं, और

(ख) जो उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा (3) की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमाशुल्क, से छूट प्राप्त है, या जिस पर उक्त अतिरिक्त सीमाशुल्क की कोई रकम किसी कारण से संदेय नहीं है।

और 2 जून, 1998 से 12 जून, 1998 तक की अवधि के दौरान कई आयातकर्ताओं द्वारा आयात किया गया ऐसा माल, जिसकी दशा में सीमाशुल्क की निःशुल्क दरें विनिर्दिष्ट की गई थीं, और जिसे उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट प्रदान की गई थी अथवा जिस पर उक्त अतिरिक्त सीमाशुल्क की कोई रकम किसी कारण से संदेय नहीं थी और जिस पर अधिसूचना सं. 29/98-सीमाशुल्क तारीख 2 जून, 1998 के अधीन विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट का दावा किया गया था,

और 13 जून, 1998 से 31 जुलाई, 1998 तक की अवधि के दौरान कई आयातकर्ताओं द्वारा आयात किया गया ऐसा माल, जिसकी दशा में सीमाशुल्क की निःशुल्क दरें विनिर्दिष्ट की गई थीं, और जिसको छूट अधिसूचना के रूप में सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट प्रदान की गई थी किन्तु जिस पर उक्त अतिरिक्त सीमाशुल्क की कोई रकम किसी कारण से संदेय नहीं थी और जिस पर अधिसूचना सं. 34/98-सीमाशुल्क तारीख 13 जून, 1998 के फायदे का दावा किया गया था,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि ऐसी परिपाटी के अनुसार जो उक्त पैरा 4 और 5 में यथा वर्णित कई आयातकर्ताओं द्वारा आयात किए गए माल पर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अधीन शुल्क के उद्ग्रहण (जिसके अन्तर्गत उसका अनुद्ग्रहण भी है) के बारे में साधारणतया प्रचलित थी, विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क 2 जून, 1998 से ही प्रारम्भ होने वाली और 31 जुलाई, 1998 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान पूर्वोक्त अधिसूचनाओं के फायदे का विस्तार करते हुए उद्ग्रहीत नहीं किए गए थे।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशित करती है कि उक्त सीमाशुल्क अधिनियम और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3क के अधीन संदेय विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क, उक्त पैरा 4 और 5 में यथा वर्णित कई आयातकर्ताओं द्वारा आयात किए गए माल पर, उक्त परिपाटी के कारण, 2 जून, 1998 से 31 जुलाई, 1998 तक की अवधि के दौरान आयात किए गए उक्त माल पर संदेय किए जाने के लिए अपेक्षित नहीं होगा।

[फा. सं. 523/6/2000-सी.शु. (टी.यू.)]

डी. एस. गर्गवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2003

No. 2/2003-Customs (NT)

G.S.R. 11(E).—Whereas the Central Government vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance (Department of Revenue), number 29/98-Customs, dated the 2nd June, 1998, exempted from special additional duty of Customs, leviable under Section 3A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), inter alia, the following goods :

All goods falling within the First Schedule to the said Customs Tariff Act, which are exempt from :—

- the whole of the duty of customs leviable thereon under the said Schedule, and
- the whole of the additional duty of customs leviable thereon under Sub-section (1) of Section (3) of the said Customs Tariff Act.

And, whereas the Central Government vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance (Department of Revenue), number 34/98-Customs, dated the 13th June, 1998, exempted from special additional duty, inter alia the following goods :

- (i) All goods falling within the said First Schedule, which are exempt from ;—
 - (a) the whole of the duty of customs leviable thereon under the said Schedule, and
 - (b) the whole of the additional duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of Section 3 of the said Customs Tariff Act.
- (ii) All goods falling within the said First Schedule,—
 - (a) in the case of which Free rates of duty of customs are specified in column (4) or column (5), as the case may be, of the said First Schedule, and
 - (b) which are exempt from the whole of the additional duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of Section 3 of the said Customs Tariff Act.

And, whereas the Central Government vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance (Department of Revenue), number 56/98-Customs, dated the 1st August, 1998, exempted from special additional duty, inter alia, the following goods :

- (i) All goods falling within the said First Schedule, which are exempt from;—
 - (a) the whole of the duty of customs leviable thereon under the said Schedule, and
 - (b) the whole of the additional duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of Section 3 of the said Customs Tariff Act.
- (ii) All goods falling within the said First Schedule,—
 - (a) in the case of which Free rates of duty of customs are specified in column (4) or column (5), as the case may be, of the said First Schedule, and
 - (b) which are exempt from the whole of the additional duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of Section 3 of the said Customs Tariff Act or on which no amount of said additional duty of customs is payable for any reason.

And, whereas, during the period from 2nd June, 1998 to 12th June, 1998, the goods imported by several importers in the case of which Free rates of duty of customs were specified and which were exempt from the whole of the additional duty of customs leviable thereon or on which no amount of the said additional duty of customs was payable for any reason and claimed exemption from special additional duty under the notification number 29/98-Customs, dated 2nd June, 1998.

And, whereas, during the period from 13th June, 1998 to 31st July, 1998, the goods imported by several importers in the case of which Free rates of duty of customs were specified and which were not exempted from the whole of the additional duty of customs by way of an exemption notification, but on which nevertheless, no amount of the said additional duty of customs was payable for any reason, and claimed benefit of the notification number 34/98-Customs, dated 13th June, 1998.

And, whereas, the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty (including non-levy thereof) under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and said Customs Tariff Act on the goods imported by several importers as mentioned in paragraphs 4 and 5 above, the special additional duty of customs were not being levied extending benefit of the aforesaid notifications, during the period commencing on and from 2nd June, 1998 and ending with the 31st July, 1998.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 28A of the said Customs Act, the Central Government, hereby directs that the special additional duty of Customs payable under the said Customs Act, and Section 3A of the Customs Tariff Act, 1975, on the goods imported by several importers as mentioned in paragraphs 4 and 5 above, but for the said practice shall not be required to be paid on the said goods imported during the period from 2nd June, 1998 to 31st July, 1998.

[F. No.523/6/2000-CUS (T.U.)]

D. S. GARBYAL, Under Secy.